



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कोनी पुलिस थाना के सामने, बिलासपुर-रतनपुर मार्ग, कोनी, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

क्रमांक : 462 / अ.छा.क. / 2022

बिलासपुर, दिनांक: 15 / 05 / 2023

प्रति,


विभागाध्यक्ष (समस्त)
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- विभाग में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के सम-सेमेस्टर में अध्ययनरत् छात्रों के "Poor and Needy Student Scholarship" आवेदन के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्धारित प्रारूप (विश्वविद्यालय के वेब पटल पर Administration ⇨ DSW ⇨ Student Welfare Scheme) में अपना आवेदन अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में दिनांक 31/05/2023 तक समस्त वांछित दस्तावेजों (पिछले सेमेस्टर/वर्ष के अंकसूची की कॉपी, BPL कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड की स्वच्छ छाया प्रति) के साथ अनिवार्यतः प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

नोट:- उक्त समस्त जानकारी गूगल फार्म (विश्वविद्यालय के वेब पटल पर Administration ⇨ DSW ⇨ Student Welfare Scheme) में भी आवश्यक रूप से दर्ज करें।


(डॉ.एच.एस.होता)


अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

क्रमांक: 463 / अ.छा.क. / 2023

बिलासपुर, दिनांक: 15 / 05 / 2023

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति महोदय के निज सहायक को, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव के सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन प्रति।


अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

APPLICATION FOR STUDENTS' WELFARE FUND TO POOR AND NEEDY STUDENT FOR THE STUDETS OF UG/PG COURSES OF UTD

1. Name of the student : _____
2. Father's name: _____
3. Gender: M/F : _____
4. Date of Birth: _____
5. Category: (GEN/SC/ST/OBC) : _____
6. Whether DA (Yes/No) _____
7. Source of income of Family i. Govt. Job ii. Private Job iii. Agriculture iii. Own business iv. Any other.
8. Annual Income from all sources _____
(Attach proof)
9. Level UG/PG: _____
10. Class _____ Semester _____
Department _____ Academic year _____
11. Amount of tuition fee paid in this semester _____ date _____ Challan No _____
(Attach proof of receipt)
12. Overall marks in just preceding year _____ percentage of marks _____.
(Attach self attested copy of mark sheet of all semesters)
13. Have you taken readmission in this semester due to any reason (Yes/No) _____ If
yes specify year and semester _____
14. Do you have any back paper in any semester (Yes/No) _____ if yes specify subject, semester
and year _____
15. Have you availed this scholarship earlier (If yes) give following detail
Class _____ semester _____ Academic year _____
16. Academic session in which seeking for financial assistance _____
17. Mailing address with mobile number _____

18. Account detail : Name: _____ AC No. _____
Name of bank _____ Branch _____
IFSC code _____
19. E-Mail ID _____

Declaration by student

I hereby declare that the above information is true and complete to the best of my knowledge. I am aware that if any information herein is found to be incorrect or incomplete, my application form will be rejected and Students' welfare fund for poor and needy students to be provided shall be cancelled and tuition fee exempted will be returned/paid by me with penalty.

Date

Signature, Student

Forwarded by HOD

This is certify that Mr./Ms(Student Name) ----- with Enrolment No. -----is admitted in academic session ----- and studying in the department of (Name of department) -----(Class)----- (Semester)----- . As per the documents produced by him/her, he/She is eligible/ Not eligible for getting student welfare fund as per eligibility criteria mentioned in clause 3 of the this guideline and is being forwarded for the same.

Date:

Head
(Signature and Seal)

Recommendation by Students' welfare Committee

Certify that student ----- class -----semester ----- department -----is eligible/not eligible to avail students' welfare as per the guidelines and hence recommended/rejected the same.

Date:

Members

Dean Student Welfare